

लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हिन्दू महासभा प्रत्याक्षी

By : INVC Team Published On : 13 Feb, 2019 04:46 PM IST

आई एन वी सी न्यूज़ नई दिल्ली, आज अखिल भारत हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की पार्टी मुख्यालय हिन्दू महासभा भवन में आयोजित बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आये हुए प्रतिनिधियों ने लोकसभा चुनाव 2019 में मजबूती से लड़ने का निर्णय लिया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौषिक ने किया तथा संचालन राष्ट्रीय महामंत्री मुन्ना कुमार शर्मा ने किया। प्रतिनिधियों का स्वागत राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने किया। बैठक में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों से सैकड़ों प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। प्रतिनिधियों ने देश भर में कम-से-कम एक सौ हिन्दू महासभा प्रत्याक्षी लड़ाने का निर्णय लिया है। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि अयोध्या, काशी एवं मथुरा में मंदिर निर्माण, देश में एक समान नागरिक कानून बनाने, संविधान की धारा-370 को समाप्त करने एवं गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिये कठोर केन्द्रीय कानून बनाने, युवाओं को रोजगार देने, किसानों की समस्याओं का समाधान करने आदि मुद्दों पर अखिल भारत हिन्दू महासभा देश की जनता के बीच जायेगी एवं कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, राजद, डीएमके, एआईएडीएमके, बीजू जनतादल, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों की वादाखिलाफी के विरुद्ध आवाज उठायेगी। बैठक में दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सुनील कुमार, उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष योगेन्द्र वर्मा, मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक मोहनलाल वर्मा, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अनिल पवार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसंत राव पाटील, अभय सिंह कुलकर्णी, राघव मिश्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद पंडित जोषी, मोहन कोरेमोरे, प्रवीन अत्री, जनार्दन दूबे, गौरव मेहरोत्रा, सुभाष पांडेय आदि ने अपने विचार रखे।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/लोकसभा-चुनाव-लड़ेंगे-हिन्दू/>